



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, सितम्बर 22—सितम्बर 28, 2019, शनिवार/भाद्र 31—आश्विन 6, 1941

No. 30] NEW DELHI, SEPTEMBER 22— SEPTEMBER 28, 2019, SATURDAY/BHADRA 31—ASVINA 6, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

**का.नि.आ. 85.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना के छह कम्बेट इंजीनियर प्रशिक्षण केंद्रों में लश्कर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :- रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवा में

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (समूह 'ग' पदों) लश्कर, कम्बेट इंजीनियर प्रशिक्षण केंद्रों में भर्ती नियम 2019 है  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, और आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता .**—वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लश्कर	120* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचित्वीय	(स्तर - 1 (रु 18000-56900)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण 1 :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) <b>टिप्पण 2 :-</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक :</b> (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य। (ख) भारी सामानों और उपस्कर को संभालने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम और मजबूत। <b>टिप्पण :</b> विज्ञापन सूचना के माध्यम से भर्ती इकाई या ऐजेंसी द्वारा भौतिक मानकों को निर्धारित किया जाएगा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b> 1. कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल/समतुल्य रैंक का अन्य अधिकारी - अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर (विभाग के ऐसे अधिकारी जो उन व्यक्तियों जिनकी उपयुक्तता निर्धारित की जानी है उनके कार्यों से परिचित हों) या समतुल्य - सदस्य सिविलियन अधिकारी 3. कैप्टन/ लेफ्टिनेंट/समतुल्य रैंक (अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी जो उस व्यक्ति जिनकी प्रोन्नति विचारणीय है) से संबंधित न हो। - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा सं. पी सी-39560/सिवि./8/ई-1ए/आर.आर./सी ई टी सी/लश्कर/460/डी (ए) 16]

एस. एस. एस. शर्मा, निदेशक (इ और सी पी)

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 17th September, 2019

**S.R.O. 85.**—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lascar, in the 6 Combat Engineer Training Camps of the Army, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, in Defence Services (Group 'C' posts) Lascar, in the Combat Engineer Training Camps Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

**4. Disqualification.**—No person, –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection or Non-Selection	Age limit for Direct Recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Lascar	120* (2019)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Industrial	level-1 18000-56900	Not Applicable	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Caste and the Schedule Tribes). <b>Note-1.</b> - The crucial date for determining the age limit for direct recruitment shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddhak subdivision of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep. <b>Note-2.</b> - In the case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	Whether age and qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1. Essential :</b> (a) Matriculation or its equivalent from recognised board. (b) Physically fit and strong for handling heavy stores and equipment. Note- Physical standards will be laid down by the recruiting unit or agency at the time of recruitment through advertisement notice.	Not applicable	two years	By Direct recruitment

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b> 1. Colonel/Lieutenant Colonel /Other officer of equivalent rank - Chairman 2. Lieutenant Colonel /Major (Officer from department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed.) - Member 3. Captain/ Lieutenant /Equivalent rank (Officer of another department not connected with the one in which promotions are considered. - Member	Not Applicable.

[F. No. PC-39560/Civ/8/E1A/RR/CETC/Lascar/460/D(A)/16]

S.S.S. SARMA, Director (E &amp; CP)